

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 500 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 सितम्बर 2023 — अश्विन 5, शक 1945

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 27 सितम्बर 2023

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-4/2023/18.— छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम पंचायत को नगर पंचायत सरसीवा, जिला—सारंगढ़ बिलाईगढ़ गठित करता है:—

### अनुसूची -1

नगर पंचायत सरसीवा की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले ग्राम पंचायत क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:—

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	जनसंख्या वर्ष 2011
1	ग्राम पंचायत सरसीवा	6216

### अनुसूची -2

नगर पंचायत सरसीवा की सीमाएं निम्नानुसार है :-

ग्राम पंचायत सरसीवा की सीमाएं ही नगर पंचायत सरसीवा की सीमाएं होंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी.एस. ध्रुव, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 27 सितम्बर 2023

क्रमांक एफ 1-4/2023/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-4/2023/18 दिनांक 27-09-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी.एस. ध्रुव, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 27th September 2023

NOTIFICATION

No. F 1-4/2023/18.— In exercise of powers conferred by Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government Constitute Nagar Panchayat Sarsiwan in District-Sarangarh Bilaigarh as per the Schedule given below :-

SCHEDULE-1

The particulars of areas included in the limits of Nagar Panchayat Sarsiwan is as under :-

S.No.	Name of Gram panchayat	population year 2011
1	Gram panchayat Sarsiwan	6216

SCHEDULE-2

The boundaries of the Nagar Panchayat Sarsiwan is as under:-

The Boundaries of the Nagar Panchayat Sarsiwan shall be the boundaries of Gram Panchayat Sarsiwan.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
P.S. DHRUV, Joint Secretary.